



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

12 ज्येष्ठ 1945 (श0)  
(सं0 पटना 453) पटना, शुक्रवार, 2 जून 2023

सं० 02/स्था०-SDRF-04/2021-1911/आ०प्र०  
आपदा प्रबंधन विभाग

संकल्प

16 मई 2023

विषय— राज्य आपदा रिस्पोस बल में संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों की संविदा अवधि के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1987 दिनांक-24.07.2018 की कंडिका-4(iv) में वर्णित प्रावधान में आंशिक संशोधन के संबंध में।

आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1987 दिनांक-24.07.2018 की कंडिका-4(iv) के अंतिम भाग में संविदा के आधार पर नियोजित सभी कर्मियों की संविदा अवधि के संबंध में निम्नानुसार प्रावधान किया गया है :-

“सभी कर्मियों को 03 (तीन) वर्षों के लिए नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी कार्यक्षमता एवं आचरण के आधार पर अगले 05 (पाँच) वर्षों तक सेवा विस्तार दिया जा सकेगा। विशेष परिस्थिति में इन कर्मियों को 02 (दो) वर्षों के लिए अतिरिक्त सेवा विस्तार दिया जा सकेगा, परन्तु किसी भी परिस्थिति में कर्मियों के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा।”

2. कार्यहित में राज्य आपदा रिस्पोस बल में संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों की संविदा अवधि के संबंध में आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना के संकल्प सं०-1987 दिनांक-24.07.2018 की कंडिका-4(iv) के अंतिम भाग में उल्लेखित उपर्युक्त प्रावधान को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

“सभी कर्मियों को प्रथमतः 05 (पाँच) वर्षों के लिए नियुक्त किया जायेगा तथा उनकी कार्यक्षमता एवं आचरण के आधार पर आवश्यकतानुसार एक-एक साल के लिए अगले 10 (दस) वर्षों तक सेवा विस्तार दिया जा

सकेगा। परन्तु किसी भी परिस्थिति में कर्मों के 60 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात सेवा विस्तार नहीं दिया जायेगा।”

3. यह संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा।

**आदेश—** आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के असाधारण पत्र में प्रकाशित किया जाए तथा इसकी प्रति संबंधित पदाधिकारियों तथा संबंधित विभागों की दी जाए।

आदेश से,  
संजय कुमार अग्रवाल,  
सरकार के सचिव।

---

**अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 453-571+100-डी0टी0पी0।  
Website: <http://egazette.bih.nic.in>**